

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2016—चैत्र 13, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. 5426-100-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 7 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2016.**A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

PART-I**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)****Amendment to the Madhya Pradesh Act. No. 23 of 1956.**

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 133-A in sub-section (1),—

(i) for the words "one per centum", the words "two per centum" shall be substituted;

(ii) the following provision shall be added, namely :—

"The amount of duty so received to the Municipal Corporation shall be used for implementation of infrastructure development projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Corporation."

PART-II**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)****Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.**

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 161, in the opening paragraph of sub-section (1),—

(i) for the words "one per centum", the words "two per centum" shall be substituted;

(ii) for colon, the full stop shall be substituted and thereafter the following provision shall be added, namely :—

"The amount of duty so received to the Municipal Council or Nagar Parishad shall be used for implementation of infrastructure development projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Council or Nagar Parishad;"

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With increasing unurbanization in the State, it is necessary to make urban local bodies financially sound to implement the important schemes of urban development and infrastructure of Government of India and State. The stamp duty charge is one of the most important head of allocation to urban local bodies in the State. Presently the urban local bodies are receiving one percent stamp duty on the value of the property. The State Government has decided to

increase the stamp duty charge from one percent to two percent. This allocation shall be used for implementation of important urban infrastructure schemes such as Swachh Bharat Mission, AMRUT, Smart City, Mukhyamantri Shehri Adhoshanrachna Vikas, Mukhyamantri Shehri Peyjal Yojana etc. or for repayment of loan taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Corporation.

2. In order to achieve aforesaid objective suitable amendments are proposed in Section 133-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 161 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

3. Hence this Bill.

BHOPAL:
DATED THE 29th MARCH, 2016.

LAL SINGH ARYA
Member-In-Charge.